

QUESTION PAPER Uchcha Madhyamic Commerce [SHIFT - 1]	
Exam Date : 09/09/2023	Time : 03:00 PM - 05:30 PM
Subject Name : Commerce	Subject Code : 225

Subject Question	
Question 1 किस अवधारणा के अनुसार प्रतिवर्ष एक जैसी लेखांकन पद्धतियों का पालन किया जाना चाहिए Answer : (A) पूर्ण प्रकटीकरण (B) सारता (C) एकरूपता (D) मिलान Right Answer : एकरूपता	Question Id : 1 Option Id ☐ 1001 ☐ 1002 ☐ 1003 ☐ 1004 Right Option Id : 1003
Question 2 क्रय दैनिक बही के योग को आवधिक रूप से मे लिखा जाता है। Answer : (A) क्रय खाते के डेबिट (B) क्रय खाते के क्रेडिट (C) रोकड़ बही (D) इनमे से कोई नहीं Right Answer : क्रय खाते के क्रेडिट	Question Id : 55 Option Id ☐ 55001 ☐ 55002 ☐ 55003 ☐ 55004 Right Option Id : 55002
Question 3 क्रय वापसी खाता सदैव शेष प्रदर्शित करता है Answer : (A) डेबिट (B) क्रेडिट (C) A और B दोनों (D) इनमें से कोई नहीं Right Answer : इनमें से कोई नहीं	Question Id : 54 Option Id ☐ 54001 ☐ 54002 ☐ 54003 ☐ 54004 Right Option Id : 54004
Question 4 तलपट का मिलना बताता है:- Answer : (A) खातों की अंकगणीतीय शुद्धता (B) खाताबही की शुद्धता (C) खाता-पुस्तकों का उचित रख रखाव (D) इनमें से कोई नहीं Right Answer : खातों की अंकगणीतीय शुद्धता	Question Id : 53 Option Id ☐ 53001 ☐ 53002 ☐ 53003 ☐ 53004 Right Option Id : 53001

Question 5 लागत अवधारणा से आशय है:- Answer : (A) माल का लागत मूल्य पर विक्रय (B) माल का बाजार मूल्य पर विक्रय (C) माल का लागत मूल्य + लागत के प्रतिशत पर विक्रय (D) सम्पति का पुस्तकों में लागत मूल्य पर लेखांकन Right Answer : माल का लागत मूल्य पर विक्रय	Question Id : 52 Option Id ☐ 52001 ☐ 52002 ☐ 52003 ☐ 52004 Right Option Id : 52001
Question 6 अन्तिम खातो का उद्देश्य ज्ञात करना है:- Answer : (A) लाभ (B) हानि (C) पूँजी (D) लाभ या हानि एवं विल्लीय स्थिति Right Answer : पूँजी	Question Id : 51 Option Id ☐ 51001 ☐ 51002 ☐ 51003 ☐ 51004 Right Option Id : 51003
Question 7 गैर-व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क है: Answer : (A) पूँजीगत प्राप्ति (B) आयगत प्राप्ति (C) Aऔर B दोनों (D) इनमें से कोई नहीं Right Answer : पूँजीगत प्राप्ति	Question Id : 50 Option Id ☐ 50001 ☐ 50002 ☐ 50003 ☐ 50004 Right Option Id : 50001
Question 8 एकहरी लेखा प्रणाली का आशय है: Answer : (A) प्रत्येक व्यवहार की केवल एक प्रविष्टि (B) अपूर्ण द्वि प्रविष्टि (C) दोनों प्रविष्टियाँ केवल खाता में (D) इनमें से कोई नहीं Right Answer : अपूर्ण द्वि प्रविष्टि	Question Id : 49 Option Id ☐ 49001 ☐ 49002 ☐ 49003 ☐ 49004 Right Option Id : 49002
Question 9 किराया क्रय मूल्य हमेशा वस्तु के रोकड़ मूल्य से अधिक होता है क्योंकि किराया क्रय मूल्य में शामिल रहता है: Answer :	Question Id : 48 Option Id

- (A) अतिरिक्त माल

☐ 48001
- (B) पारिवारिक सम्बन्ध

☐ 48002
- (C) किराया शुल्क

☐ 48003
- (D) इनमें से कोई नहीं

☐ 48004

Right Answer :
किराया शुल्क

Right Option Id : 48003

Question 10
किस्त भुगतान प्रणाली के अन्तर्गत व्याज उचंत खाता का शेष क्रेता के पुस्तक के----- दिखाया जाता है।
Answer :
(A) लाभ हानि खाता के नाम पक्ष में
(B) अर्थिक चिट्ठा के दयाित्व पक्ष में
(C) अर्थिक चिट्ठा के सम्पति पक्ष में
(D) लाभ हानि खाता के क्रेडिट पक्ष में

Question Id : 47

Option Id
☐ 47001
☐ 47002
☐ 47003
☐ 47004

Right Answer :
अर्थिक चिट्ठा के सम्पति पक्ष में

Right Option Id : 47003

Question 11
साझेदारी फर्म के समापन के समय कृत्रिम सम्पत्तियों को-----में हस्तान्तरित किया जाता है।
Answer :
(A) साझेदारों के पूँजी खाता में
(B) वसूली खाता में
(C) रोकड़ खाता में
(D) साझेदारों के ग्रहण खाता में

Question Id : 46

Option Id
☐ 46001
☐ 46002
☐ 46003
☐ 46004

Right Answer :
साझेदारों के पूँजी खाता में

Right Option Id : 46001

Question 12
यदि साझेदारों की पूँजी अस्थिर हो, दिवालिया साझेदार की कमी को शोधक्षम्य साझेदारों द्वारा-----में वहन किया जाता है।
Answer :
(A) दी गई पूँजी अनुपात
(B) समायोजित पूँजी अनुपात
(C) लाभ-हानि अनुपात
(D) उपरोक्त सभी

Question Id : 45

Option Id
☐ 45001
☐ 45002
☐ 45003
☐ 45004

Right Answer :
समायोजित पूँजी अनुपात

Right Option Id : 45002

Question 13
जब पट्टेदार भुगतान प्राप्त करता है तो वह क्रेडिट करता है-
Answer :
(A) पट्टाधारी खाता
(B) अधिकार शुल्क प्राप्त खाता
(C) लघुकार्य राशि खाता

Question Id : 44

Option Id
☐ 44001
☐ 44002
☐ 44003

(D) इनमें से कोई नहीं

☐ 44004

Right Answer :
पट्टाधारी खाता

Right Option Id : 44001

Question 14

यदि शाखा ने प्रधान कार्यालय के ग्राहक से रूपये वसूल किये हैं तो (प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में)-

Answer :

(A) शाखा खाते को क्रेडिट किया जाता

(B) शाखा खाते को डेबिट किया जाता है

(C) देनदार के खाते को डेबिट किया जाता है

(D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :
शाखा खाते को डेबिट किया जाता है

Question Id : 43

Option Id

☐ 43001

☐ 43002

☐ 43003

☐ 43004

Right Option Id : 43002

Question 15

बिक्री कमीशन का विभिन्न विभागों में विभाजन किया जाता है-

Answer :

(A) समय के आधार पर

(B) बिक्री के आधार पर

(C) प्रत्येक विभाग द्वारा घरे गये स्थान के अनुपात में

(D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :
प्रत्येक विभाग द्वारा घरे गये स्थान के अनुपात में

Question Id : 42

Option Id

☐ 42001

☐ 42002

☐ 42003

☐ 42004

Right Option Id : 42003

Question 16

चिट्ठा अंकेक्षण में जाँच होती है :-

Answer :

(A) केवल स्थायी सम्पत्तियों की

(B) केवल स्थायी दायित्व की

(C) सभी सम्पत्तियों एवं दायित्व की

(D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :
सभी सम्पत्तियों एवं दायित्व की

Question Id : 41

Option Id

☐ 41001

☐ 41002

☐ 41003

☐ 41004

Right Option Id : 41003

Question 17

आन्तरिक अंकेक्षक का प्रतिवेदन

Answer :

(A) मान्य है

(B) अमान्य है

(C) दोनों (A) एवं (B)

(D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :
अमान्य है

Question Id : 56

Option Id

☐ 56001

☐ 56002

☐ 56003

☐ 56004

Right Option Id : 56002

Question 18 परीक्षण जाँच के अन्तर्गत Answer : (A) सभी लेखा-पुस्तकों की जाँच होती है (B) खास-खास लेखा पुस्तकों की जाँच होती है (C) दोनों (A) एवं (B) (D) इनमें से कोई नहीं Right Answer : खास-खास लेखा पुस्तकों की जाँच होती है	Question Id : 57 Option Id ☐ 57001 ☐ 57002 ☐ 57003 ☐ 57004 Right Option Id : 57002
--	---

Question 19 ' लेखांकन की पुस्तकों में किये गये लेखों की सत्यता का प्रमाण देने वाले प्रपत्र की प्रमाणक कहे जाते है'' किसकी परिभाषा है ? Answer : (A) जे. आर. बॉटलीबॉय (B) लंकास्टर (C) स्पाइसर एण्ड पेगलर (D) इनमें से कोई नहीं Right Answer : जे. आर. बॉटलीबॉय	Question Id : 58 Option Id ☐ 58001 ☐ 58002 ☐ 58003 ☐ 58004 Right Option Id : 58001
--	---

Question 20 मूल्यांकन के उच्चतम मूल्य के पहले निर्गमन विधि का प्रयोग होता है Answer : (A) जब सामग्री मूल्य बढ़ रहा है। (B) जब सामग्री का मूल्य घट रहा है। (C) जब सामग्री मूल्य स्थिर हो (D) इनमें से कोई नहीं Right Answer : जब सामग्री मूल्य बढ़ रहा है।	Question Id : 67 Option Id ☐ 67001 ☐ 67002 ☐ 67003 ☐ 67004 Right Option Id : 67001
---	---

Question 21 अंकेक्षक रिपोर्ट जब कुछ आपत्ति सहित हो तो जाना जाता है: Answer : (A) स्वच्छ रिपोर्ट (B) मर्यादित रिपोर्ट (C) अमर्यादित रिपोर्ट (D) इनमें से कोई नहीं Right Answer : मर्यादित रिपोर्ट	Question Id : 73 Option Id ☐ 73001 ☐ 73002 ☐ 73003 ☐ 73004 Right Option Id : 73002
--	---

Question 22 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 39 सम्बन्धित है: Answer :	Question Id : 72 Option Id
---	---

- (A) प्रविवरण

☐

72001
- (B) मिनट बुक

☐

72002
- (C) न्यूनतम अभिदान

☐

72003
- (D) इनमें से कोई नहीं

☐

72004

Right Answer :
न्यूनतम अभिदान

Right Option Id : 72003

- Question 23**

क्या एक पूर्णक अन्यत्र कार्यरत पूर्ण कालिक कर्मचारी कम्पनी का अंकेक्षक नियुक्त हो सकता है?

Answer :

(A) हाँ

(B) नहीं

(C) सीमित समय

(D) कोई भी नहीं
- Question Id : 71**

Option Id

☐ 71001

☐ 71002

☐ 71003

☐ 71004

Right Answer :
नहीं

Right Option Id : 71002

- Question 24**

एक अंकेक्षक वही खाता का ग्रहणाधिकर भी रखता है।

Answer :

(A) हाँ

(B) नहीं

(C) कह नहीं सकते

(D) कोई नहीं
- Question Id : 70**

Option Id

☐ 70001

☐ 70002

☐ 70003

☐ 70004

Right Answer :
नहीं

Right Option Id : 70002

- Question 25**

स्कूल/कॉलेज का निबंधन किसके अर्न्तगत हो सकता है?

Answer :

(A) सोसाईटी अधिनियम, 1860

(B) भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013

(C) साझेदारी अधिनियम

(D) कोई भी नहीं
- Question Id : 69**

Option Id

☐ 69001

☐ 69002

☐ 69003

☐ 69004

Right Answer :
सोसाईटी अधिनियम, 1860

Right Option Id : 69001

- Question 26**

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम के अनुसार प्रतिफल:

Answer :

(A) एक अजनवी से अन्यत्र हो सकता है

(B) एक अजनवी से अन्यत्र नहीं हो सकता है

(C) A एवं B दोनों

(D) उपर्यूक्त में से किसी से नहीं
- Question Id : 68**

Option Id

☐ 68001

☐ 68002

☐ 68003

68004

Right Answer :

एक अजनवी से अन्यत्र हो सकता है

Right Option Id : 68001

Question 27

निम्नलिखित में से कौन गलती की श्रेणी में है:

Answer :

(A) कानून की गलती

(B) सच्चाई की गलती

(C) A एवं B दोनों

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Question Id : 66

Option Id

66001

66002

66003

66004

Right Answer :

A एवं B दोनों

Right Option Id : 66003

Question 28

निम्नलिखित में से कौन विक्रय अनुबंध का एक आवश्यक तत्व है:

Answer :

(A) वस्तु

(B) सम्पत्ति का हस्तान्तरण

(C) वस्तु की सुपुर्दगी

(D) उपर्युक्त सभी

Question Id : 59

Option Id

59001

59002

59003

59004

Right Answer :

उपर्युक्त सभी

Right Option Id : 59004

Question 29

अधिकार का अर्थ है:

Answer :

(A) स्वमित्व का अधिकार

(B) योग्यता प्राप्त अधिकार

(C) A एवं B दोनों

(D) उपर्युक्त में से कुछ नहीं

Question Id : 65

Option Id

65001

65002

65003

65004

Right Answer :

A एवं B दोनों

Right Option Id : 65003

Question 30

विनिमय साध्य लेख पत्र की धारा है

Answer :

(A) 9

(B) 8

(C) 7

(D) 6

Question Id : 64

Option Id

64001

64002

64003

64004

Right Answer :

9

Right Option Id : 64001

Question 31

बैंक उसका भुगतान करने से इंकार कर सकता है यदि चैक

Answer :

(A) 3 महीने पुराना हो

(B) 6 महीने पुराना हो

(C) 1 महीना पुराना

(D) इसमें से कोई नहीं

Right Answer :
6 महीने पुराना हो

Question Id : 63

Option Id

☐ 63001

☐ 63002

☐ 63003

☐ 63004

Right Option Id : 63002

Question 32

आपत्तिकाल में प्रत्येक साझेदार को प्राप्त होते है :

Answer :

(A) सामान्य अधिकार

(B) सभी अधिकार

(C) कोई अधिकार नहीं

(D) इसमें से कोई नहीं

Right Answer :
सभी अधिकार

Question Id : 62

Option Id

☐ 62001

☐ 62002

☐ 62003

☐ 62004

Right Option Id : 62002

Question 33

निष्क्रिय साझेदार फर्म के ऋणों के लिए है

Answer :

(A) उत्तरदायी

(B) उत्तरदायी नहीं

(C) a और b दोनों

(D) इसमें से कोई नहीं

Right Answer :
उत्तरदायी नहीं

Question Id : 61

Option Id

☐ 61001

☐ 61002

☐ 61003

☐ 61004

Right Option Id : 61002

Question 34

केन्द्रिय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का सभापति होता है :

Answer :

(A) सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

(B) केन्द्र सरकार में उपभोक्ता मामले का भारसाधक मन्त्री

(C) उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश

(D) प्रधानमन्त्री

Right Answer :
केन्द्र सरकार में उपभोक्ता मामले का भारसाधक मन्त्री

Question Id : 60

Option Id

☐ 60001

☐ 60002

☐ 60003

☐ 60004

Right Option Id : 60002

Question 35

मध्यस्थता का स्थान विवाद के पदार्थ पर लागू नियमों के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है और बैंक के खिलाफ संसाधन के रूप में जाना जाता है

Answer :

(A) पुरस्कार

Question Id : 40

Option Id

☐ 40001

- (B) मध्यस्थता करना
- (C) तारामंडल
- (D) मध्यस्थता

- ☐ 40002
- ☐ 40003
- ☐ 40004

Right Answer :
पुरस्कार

Right Option Id : 40001

Question 36

यदि 10,000 रुपये के डिबेंचर सममूल्य पर जारी किए जाते हैं लेकिन 10% प्रीमियम पर देय होते हैं जोडेबिट किया जाता है।

Answer :

- (A) डिबेंचर सस्पेंस खाते
- (B) डिबेंचर जारी करने पर नुकसान खाते
- (C) डिबेंचर के मोचन पर प्रीमियम खाते
- (D) इनमें से कोई नहीं

Question Id : 39

Option Id

- ☐ 39001
- ☐ 39002
- ☐ 39003
- ☐ 39004

Right Answer :
डिबेंचर के मोचन पर प्रीमियम खाते

Right Option Id : 39003

Question 37

प्रतिदेय वरीयता शेयर पूंजी 2,00,000 रूपये। लाभ और हानि खाते में उपलब्ध शेष राशि रुपये 70000। राशि.....के नए शेयर जारी किए जाएंगे

Answer :

- (A) 2,30,000 रुपये
- (B) 2,70,000 रुपये
- (C) 1,30,000 रुपये
- (D) 2,00,000 रुपये

Question Id : 38

Option Id

- ☐ 38001
- ☐ 38002
- ☐ 38003
- ☐ 38004

Right Answer :
1,30,000 रुपये

Right Option Id : 38003

Question 38

एक संगठन कम्प्यूटरकृत लेखा सॉफ्टवेयर विकसित करना चाहता है क्योंकि व्यवसाय या संगठन जटिल है जिसके लिए साफ्टवेयर खरीदना चाहिए?

Answer :

- (A) प्री पैक्ड सफ्टवेयर
- (B) कस्टमाइज्ड सफ्टवेयर
- (C) टेलर मेड सफ्टवेयर
- (D) उपरोक्त में से कोई भी

Question Id : 37

Option Id

- ☐ 37001
- ☐ 37002
- ☐ 37003
- ☐ 37004

Right Answer :
कस्टमाइज्ड सफ्टवेयर

Right Option Id : 37002

Question 39

कैपिटल रिडेम्प्शन रिजर्व निम्नलिखित कारणों से बनाया गया है

Answer :

- (A) पूंजी बरकरार रखने के लिए
- (B) ब्याज कंपनी के लेनदारों की रक्षा के लिए
- (C) दोनों A और B
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Question Id : 17

Option Id

- ☐ 17001
- ☐ 17002
- ☐ 17003
- ☐ 17004

Right Answer :

दोनों A और B

Right Option Id : 17003

Question 40

कथन I सीआरआर बनाने का मुख्य उद्देश्य कंपनी की पूंजी संरचना को परिवर्तनशील रखना है।

कथन II: सीआरआर बनाने का एक अन्य उद्देश्य लेनदारों के हितों की रक्षा करना है, क्योंकि सीआरआर का उपयोग लाभांश का भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है नीचे दिए गए विकल्प से सही उत्तर चुनिए

Answer :

(A) कथन सत्य है लेकिन कथन II गलत है

(B) कथन I और कथन II दोनों झूठे हैं

(C) कथन असत्य है परन्तु कथन II सत्य है

(D) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं

Option Id

☐ 16001

☐ 16002

☐ 16003

☐ 16004

Question Id : 16

Right Answer :

कथन असत्य है परन्तु कथन II सत्य है

Right Option Id : 16003

Question 41

निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

Answer :

(A) एसोसिएशन के लेखों द्वारा अधिकृत किए जाने पर प्रतिदेय वरीयता शेयर जारी किए जा सकते हैं।

(B) बोनस जारी केवल नकद में एकत्रित प्रतिभूतियों के प्रीमियम से किया जा सकता है।

(C) वरीयता शेयर के मोचन पर देय प्रीमियम कंपनी के प्रतिभूति प्रीमियम का प्रदान किया जा सकता है।

(D) प्रतिदेय वरीयता शेयरों को केवल कंपनी के मुनाफे से भुनाया जा सकता है।

Option Id

☐ 15001

☐ 15002

☐ 15003

☐ 15004

Question Id : 15

Right Answer :

प्रतिदेय वरीयता शेयरों को केवल कंपनी के मुनाफे से भुनाया जा सकता है।

Right Option Id : 15004

Question 42

किसी विशेष क्रम के अनुसार संपत्ति और देनदारियों की व्यवस्था को संतुलन के रूप में जाना जाता है।

Answer :

(A) मिलान

(B) अंकन

(C) शासन

(D) मार्शलिंग

Option Id

☐ 14001

☐ 14002

☐ 14003

☐ 14004

Question Id : 14

Right Answer :

मार्शलिंग

Right Option Id : 14004

Question 43

आप क्या समझते हैं जब कोई गैर- चालू संपत्ति के "नेट बुक वैल्यू" के रूप में संदर्भित करता है?

Answer :

(A) संपत्ति की लागत।

(B) वर्तमान अवधि में मूल्यहास के रूप में खर्च की गई राशि कम संपत्ति की लागत।

(C) की तारीख तक लागत घटा संचित मूल्यहास रिपोर्टिंग।

(D) संपत्ति का वर्तमान मूल्य।

Option Id

☐ 13001

☐ 13002

☐ 13003

☐ 13004

Question Id : 13

Right Answer :

की तारीख तक लागत घटा संचित मूल्यहास रिपोर्टिंग।

Right Option Id : 13003

Question 44 कंपनी के संवियलन का अर्थ है: Answer : (A) एक अथवा अधिक का समापन तथा कोई कंपनी का निर्माण नहीं (B) कंपनियों का समाप्त होना (C) व्यवसाय का विक्रय (D) व्यवसाय का क्रम Right Answer : एक अथवा अधिक का समापन तथा कोई कंपनी का निर्माण नहीं	Question Id : 12 Option Id ☐ 12001 ☐ 12002 ☐ 12003 ☐ 12004 Right Option Id : 12001
---	---

Question 45 विक्रेता कम्पनी संविलियन के समय प्रारम्भिक व्यय को हस्तांतरित करती है: Answer : (A) वसूली खाता में (B) क्रेता कम्पनी के खाते में (C) अंशधारी के खाते में (D) उपरोक्त में कोई नहीं Right Answer : वसूली खाता में	Question Id : 11 Option Id ☐ 11001 ☐ 11002 ☐ 11003 ☐ 11004 Right Option Id : 11001
--	---

Question 46 अंशों के उप-विभाजन के स्थिति में अंशों की संख्या में Answer : (A) वृद्धि (B) कमी (C) कोई अन्तर नहीं (D) उपरोक्त में कोई नहीं Right Answer : वृद्धि	Question Id : 10 Option Id ☐ 10001 ☐ 10002 ☐ 10003 ☐ 10004 Right Option Id : 10001
---	---

Question 47 बैंक की चुकता पूंजी उसकी प्रार्थित पूंजी के किस प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए: Answer : (A) 25 प्रतिशत (B) 50 प्रतिशत (C) 75 प्रतिशत (D) 80 प्रतिशत Right Answer : 50 प्रतिशत	Question Id : 9 Option Id ☐ 9001 ☐ 9002 ☐ 9003 ☐ 9004 Right Option Id : 9002
--	---

Question 48 मूल्यांकन चिट्ठा के वायें भाग को शेष होता है: Answer :	Question Id : 8 Option Id
--	--

- (A) बचत

☐

8001
- (B) कमी

☐

8002
- (C) सम्पत्ति

☐

8003
- (D) दायित्व

☐

8004

Right Answer :
कमी

Right Option Id : 8002

Question 49

एक सम्पत्ति ₹ 12,500 में खरीदी गयी और क्रमागत हास पद्धति से 20% वार्षिक की दर से हासित की गई। तीसरे वर्ष के अन्त में सम्पत्ति का मूल्य क्या है?

Answer :

(A) 8000

(B) 7500

(C) 6400

(D) 5000

Right Answer :
6400

Question Id : 7

Option Id

☐ 7001

☐ 7002

☐ 7003

☐ 7004

Right Option Id : 7003

Question 50

"एक सम्पत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली शनै:शनै: और स्थायी कमी को हास कहा जाता है" यह किसकी परिभाषा है:

Answer :

(A) कार्टर

(B) विलियम्स

(C) स्पाइसर

(D) कॉफर

Right Answer :
कार्टर

Question Id : 6

Option Id

☐ 6001

☐ 6002

☐ 6003

☐ 6004

Right Option Id : 6001

Question 51

एक बिस्कूट निर्माता निम्न लेखांकन प्रयोग करता है:

Answer :

(A) विभागीय लेखांकन

(B) समूह लेखांकन

(C) प्रक्रिया लेखांकन

(D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :
समूह लेखांकन

Question Id : 5

Option Id

☐ 5001

☐ 5002

☐ 5003

☐ 5004

Right Option Id : 5002

Question 52

प्रबन्धकीय लेखाविधि का सम्बन्ध मुक्त: भविष्य से होता है, जबकि लागत लेखाविधि मुख्यत: सम्बन्ध होता है:

Answer :

(A) भूतकालीन घटनाओं से

(B) वर्त्तमान की घटनाओं से

(C) दोनों A और B से नहीं

Question Id : 4

Option Id

☐ 4001

☐ 4002

☐ 4003

(D) दोनो A और B से

☐ 4004

Right Answer :

दोनो A और B से

Right Option Id : 4004

Question 53

यदि किसी प्रक्रिया में 3,000 इकाइयाँ लगायी गयी एवं सामान्य हानि 10% है और निर्मित उत्पादन 2,600 इकाइयाँ है तो:

Answer :

(A) 100 इकाइयों को असामान्य हानि

(B) 100 इकाइयों को असामान्य हानि

(C) A और B दोनों

(D) इनमें से कोई नहीं

Question Id : 3

Option Id

☐ 3001

☐ 3002

☐ 3003

☐ 3004

Right Answer :

100 इकाइयों को असामान्य हानि

Right Option Id : 3001

Question 54

मशीन-घण्टा दर पद्धति के अन्तर्गत मशीन को मानते है:

Answer :

(A) लागत इकाई

(B) एक लागत केन्द्र

(C) सेवा विभाग

(D) इनमें से कोई नहीं

Question Id : 18

Option Id

☐ 18001

☐ 18002

☐ 18003

☐ 18004

Right Answer :

एक लागत केन्द्र

Right Option Id : 18002

Question 55

निम्नलिखित में कौन-सा रूप सामग्री हानि का रूप नहीं है:

Answer :

(A) छय

(B) अवशेष

(C) विकृत सामग्री

(D) इनमें से सभी

Question Id : 2

Option Id

☐ 2001

☐ 2002

☐ 2003

☐ 2004

Right Answer :

इनमें से सभी

Right Option Id : 2004

Question 56

लागत की मदों के अनुपातों का लागत केन्द्रें अथवा लागत इकाइयों पर आबंटन करने को कहा जाता है:

Answer :

(A) लागत का अभिभाजन

(B) लागत आवंटन

(C) लागत अवशोषण

(D) उपरोक्त सभी

Question Id : 19

Option Id

☐ 19001

☐ 19002

☐ 19003

☐ 19004

Right Answer :

लागत का अभिभाजन

Right Option Id : 19001

Question 57

निम्नलिखित में से कौन-सी मद लागत लेखांकन में सम्मिलित की जाती है:

Answer :

(A) सामान्य संचय को हस्तान्तरण

(B) दान

(C) प्राप्त किराया

(D) इनमें से कोई नहीं

Question Id : 21

Option Id

☐ 21001

☐ 21002

☐ 21003

☐ 21004

Right Answer :

इनमें से कोई नहीं

Right Option Id : 21004

Question 58

जॉब कोस्टिंग को-----भी कहा जाता है

Answer :

(A) मूल लागत

(B) परिवर्तनशील लागत विधि

(C) सावधि लागत विधि

(D) स्थायी लागत विधि

Question Id : 36

Option Id

☐ 36001

☐ 36002

☐ 36003

☐ 36004

Right Answer :

सावधि लागत विधि

Right Option Id : 36003

Question 59

असामान्य हानि बराबर है:

Answer :

(A) आगत - वास्तविक उत्पादन

(B) वास्तविक उत्पादन - सामान्य उत्पादन

(C) सामान्य उत्पादन - वास्तविक उत्पादन

(D) वास्तविक उत्पादन - आगत

Question Id : 35

Option Id

☐ 35001

☐ 35002

☐ 35003

☐ 35004

Right Answer :

सामान्य उत्पादन - वास्तविक उत्पादन

Right Option Id : 35003

Question 60

समग्र प्रति इकाई लागत पर सामान्य हानि का क्या प्रभाव पड़ेगा?

Answer :

(A) प्रति इकाई लागत बढ़ जाएगी

(B) प्रति दवाई लागत घट जायेगी

(C) प्रति इकाई लागत अपरिवर्तित रहेगी

(D) इनमें से कोई नहीं

Question Id : 34

Option Id

☐ 34001

☐ 34002

☐ 34003

☐ 34004

Right Answer :

प्रति इकाई लागत बढ़ जाएगी

Right Option Id : 34001

Question 61

ऋण निधि में निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं है

Answer :

(A) डिबेंचर

Question Id : 33

Option Id

	☐ 33001
(B) ऋण	☐ 33002
(C) कराधान के लिए प्रावधान	☐ 33003
(D) सार्वजनिक जमा	☐ 33004
Right Answer : कराधान के लिए प्रावधान	Right Option Id : 33003

Question 62 प्रोपराइटर फंड पर रिटर्न ____ को दर्शाता है Answer : (A) नियोजित पूंजी का उपयोग (B) संपत्ति का उपयोग (C) मालिक निधि का उपयोग (D) कुल संसाधनों का उपयोग	Question Id : 32 Option Id ☐ 32001 ☐ 32002 ☐ 32003 ☐ 32004
Right Answer : मालिक निधि का उपयोग	Right Option Id : 32003

Question 63 वह अनुपात जो तत्काल दायित्वों का तुरंत भुगतान करने के लिए कंपनी की क्षमता को इंगित करता है Answer : (A) वर्तमान अनुपात (B) ऋण इक्विटी अनुपात (C) तरलता का अनुपात (D) मालिकाना अनुपात	Question Id : 31 Option Id ☐ 31001 ☐ 31002 ☐ 31003 ☐ 31004
Right Answer : तरलता का अनुपात	Right Option Id : 31003

Question 64 वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल है: Answer : (A) आलोचना एवं विश्लेषण (B) तुलना एवं प्रवृत्तीय अध्ययन (C) निष्कर्ष निकालना (D) उपर्युक्त सभी	Question Id : 30 Option Id ☐ 30001 ☐ 30002 ☐ 30003 ☐ 30004
Right Answer : उपर्युक्त सभी	Right Option Id : 30004

Question 65 विक्रय में से बेचे गये माल की लागत घटाकर ज्ञात की गई राशि होती है: Answer : (A) संचालन लाभ (B) सकल लाभ (C) शुद्ध लाभ (D) कुल लाभ	Question Id : 29 Option Id ☐ 29001 ☐ 29002 ☐ 29003 ☐ 29004
--	--

Right Answer :
सकल लाभ

Right Option Id : 29002

Question 66
भुनाये हुए बिलो के लिए दायित्व को कहते हैं:

Answer :

- (A) सम्भावित दायित्व
- (B) चालू दायित्व
- (C) स्थायी दायित्व
- (D) इनमें से कोई नहीं

Question Id : 28

Option Id

- ☐ 28001
- ☐ 28002
- ☐ 28003
- ☐ 28004

Right Answer :
सम्भावित दायित्व

Right Option Id : 28001

Question 67
अनुपात सहायक होता है:

Answer :

- (A) प्रवृत्तियों के निर्धारण में
- (B) लेखांकन समकों के सरलीकरण में
- (C) परिवर्तन को दर्शाने में
- (D) इनमें से सभी

Question Id : 27

Option Id

- ☐ 27001
- ☐ 27002
- ☐ 27003
- ☐ 27004

Right Answer :
इनमें से सभी

Right Option Id : 27004

Question 68
इनमें से कौन त्वरित अनुपात से सम्बन्धित नहीं है?

Answer :

- (A) रोकड़ शेष
- (B) बैंक शेष
- (C) लेनदार
- (D) बैंक अधिविकर्ष

Question Id : 26

Option Id

- ☐ 26001
- ☐ 26002
- ☐ 26003
- ☐ 26004

Right Answer :
बैंक अधिविकर्ष

Right Option Id : 26004

Question 69
वित्तीय विवरण के प्रमुख संघटक अंग है:

Answer :

- (A) आर्थिक चिट्ठा
- (B) लाभ-हानि खाता
- (C) संचालकों एवं अपेक्षकों का प्रति वेतन
- (D) इनमें से सभी

Question Id : 25

Option Id

- ☐ 25001
- ☐ 25002
- ☐ 25003
- ☐ 25004

Right Answer :
इनमें से सभी

Right Option Id : 25004

Question 70

फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ही हैं

Answer :

- (A) सच्चा
- (B) झूठा
- (C) आंशिक रूप से सच है
- (D) बयान अप्रांसगिक है

Right Answer :

झूठा

Question Id : 24

Option Id

- ☐ 24001
- ☐ 24002
- ☐ 24003
- ☐ 24004

Right Option Id : 24002

Question 71

फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए बैलेंस शीट की आवश्यकता होती है?

Answer :

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 2 या अधिक
- (D) कोई बैलेंस शीट की आवश्यकता नहीं है

Right Answer :

2 या अधिक

Question Id : 23

Option Id

- ☐ 23001
- ☐ 23002
- ☐ 23003
- ☐ 23004

Right Option Id : 23003

Question 72

निम्न में कौन सा रोकड़ वहिर्वाह नहीं है ?

Answer :

- (A) लेनदारों में वृद्धि
- (B) देनदारों में वृद्धि
- (C) रहतिया में वृद्धि
- (D) पूर्वदत्त व्ययों में वृद्धि

Right Answer :

लेनदारों में वृद्धि

Question Id : 22

Option Id

- ☐ 22001
- ☐ 22002
- ☐ 22003
- ☐ 22004

Right Option Id : 22001

Question 73

----- उस अवधि के दौरान शुद्ध कमी या नकदी में वृद्धि के आधार पर किसी निश्चित अवधि के समापन कैश बैलेंस के साथ शुरुआती कैश बैलेंस का मिलान करता है।

Answer :

- (A) कैश फ्लो स्टेटमेंट
- (B) फंड फ्लो स्टेटमेंट
- (C) A और B दोनों
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Right Answer :

कैश फ्लो स्टेटमेंट

Question Id : 74

Option Id

- ☐ 74001
- ☐ 74002
- ☐ 74003
- ☐ 74004

Right Option Id : 74001

Question 74

परिचालन व्यय की राशि जो वास्तव में नकद में भुगतान की गई है, नीचे दिखाया गया है:

Answer :

- (A) बिक्री से नकदी प्रवाह

Question Id : 20

Option Id

- ☐ 20001

- (B) खरीद पर नकद बहिर्वाह
- (C) खर्चों पर नकद बहिर्वाह
- (D) उपरोक्त सभी असत्य हैं

- ☐ 20002
- ☐ 20003
- ☐ 20004

Right Answer :
खर्चों पर नकद बहिर्वाह

Right Option Id : 20003

Question 75

निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत वस्तु-सूची का मूल्यांकन किया जाता है, अन्तिम वस्तु-सूची का मूल्यांकन न्यूनतम संभावित कीमत पर किया जाता है?

Answer :

- (A) मानक लागत विधि
- (B) समायोजित बिक्री मूल्य विधि
- (C) विशिष्ट पहचान विधि
- (D) उच्चतम-इन-फर्स्ट-आउट विधि

- Option Id
- ☐ 75001
- ☐ 75002
- ☐ 75003
- ☐ 75004

Right Answer :
उच्चतम-इन-फर्स्ट-आउट विधि

Right Option Id : 75004

Question 76

कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाता है, यदि:

Answer :

- (A) कृषि आय 5,000 ₹ से अधिक हो
- (B) कृषि आय 10,000 ₹ से अधिक हो
- (C) कृषि आय 50,000₹ से अधिक हो
- (D) कृषि आय 5,000 ₹ से अधिक हो और कुल आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो

- Option Id
- ☐ 78001
- ☐ 78002
- ☐ 78003
- ☐ 78004

Right Answer :
कृषि आय 5,000 ₹ से अधिक हो और कुल आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो

Right Option Id : 78004

Question 77

माल एवं सेवा कर है:-

Answer :

- (A) प्रत्यक्ष कर
- (B) राज्य सरकार द्वारा लगाया गया कर
- (C) केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया गया अप्रत्यक्ष कर
- (D) अधिभार

- Option Id
- ☐ 92001
- ☐ 92002
- ☐ 92003
- ☐ 92004

Right Answer :
केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया गया अप्रत्यक्ष कर

Right Option Id : 92003

Question 78

भारत में उपार्जित आय कर-योग्य होती है:-

Answer :

- (A) सभी करदाताओं के लिए
- (B) निवासी के लिए
- (C) असाधारण निवासी के लिए
- (D) अनिवासी के लिए

- Option Id
- ☐ 93001
- ☐ 93002
- ☐ 93003
- ☐ 93004

Right Answer :
सभी करदाताओं के लिए

Right Option Id : 93001

Question 79
निम्नलिखित में से पूर्णतया कर-योग्य है:
Answer :

- (A) संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ता
- (B) चिकित्सा भत्ता
- (C) मनोरंजन भत्ता
- (D) ये सभी

Question Id : 94

Option Id

- ☐ 94001
- ☐ 94002
- ☐ 94003
- ☐ 94004

Right Answer :
चिकित्सा भत्ता

Right Option Id : 94002

Question 80
धारा 80 D के अन्तर्गत निःशक्तता के संबंध में स्वीकृत कटौती की राशि है-
Answer :

- (A) 50000
- (B) 75000
- (C) शून्य
- (D) वास्तविक व्यय

Question Id : 97

Option Id

- ☐ 97001
- ☐ 97002
- ☐ 97003
- ☐ 97004

Right Answer :
75000

Right Option Id : 97002

Question 81
मान्यता प्राप्त भविष्य निधि खाते में जमा ब्याज कर मुक्त है-
Answer :

- (A) 8% तक
- (B) 9% तक
- (C) 9.5 % तक
- (D) 10 % तक

Question Id : 96

Option Id

- ☐ 96001
- ☐ 96002
- ☐ 96003
- ☐ 96004

Right Answer :
9.5 % तक

Right Option Id : 96003

Question 82
वित्तीय वर्ष 2021-22 का कर -निर्धारण वर्ष कौन सा है?
Answer :

- (A) 2018-19
- (B) 2019-20
- (C) 2022-23
- (D) इनमें से कोई नहीं

Question Id : 91

Option Id

- ☐ 91001
- ☐ 91002
- ☐ 91003
- ☐ 91004

Right Answer :
2022-23

Right Option Id : 91003

Question 83

निम्न में से किन मदों पर आज भी वैट लागू है?

Answer :

(A) तम्बाकू

(B) अल्कोहल

(C) बेबी उत्पाद

(D) कपड़ा

Right Answer :

अल्कोहल

Question Id : 98

Option Id

☐ 98001

☐ 98002

☐ 98003

☐ 98004

Right Option Id : 98002

Question 84

जी एस टी काउन्सिल के मीटिंग में केन्द्र सरकार के मत का भार होता है:

Answer :

(A) दिये गये मत का 1/3

(B) दिये गये मत का 1/2

(C) दिये गये मत का 2/3

(D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :

दिये गये मत का 1/3

Question Id : 99

Option Id

☐ 99001

☐ 99002

☐ 99003

☐ 99004

Right Option Id : 99001

Question 85

करमुक्त आपूर्ति की स्थिति में, इनपूट टैक्स क्रेडिट का क्या व्यवहार होता है?

Answer :

(A) इनपूट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जा सकता है।

(B) इनपूट टैक्स क्रेडिट के लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है

(C) 'A' तथा 'B' दोनों

(D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :

इनपूट टैक्स क्रेडिट के लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है

Question Id : 100

Option Id

☐ 100001

☐ 100002

☐ 100003

☐ 100004

Right Option Id : 100002

Question 86

वह निधि जो भविष्य के दायित्वों के निर्वहन के लिए वर्ष भर धन संचय करने के लिए बनाई जाती है कहलाती है

Answer :

(A) निक्षेप निधि

(B) शाश्वतता

(C) वित्त

(D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :

निक्षेप निधि

Question Id : 95

Option Id

☐ 95001

☐ 95002

☐ 95003

☐ 95004

Right Option Id : 95001

Question 87

3 वर्ष के लिए 10 % प्रति वर्ष की दर से 5000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हैगी-

Answer :

(A) 1655

(B) 1659

Question Id : 90

Option Id

☐ 90001

(C) 1667

(D) 1648

☐ 90002

☐ 90003

☐ 90004

Right Answer :
1655

Right Option Id : 90001

Question 88

यदि भविष्य मूल्य F है और छूट D है तो इस निवेश का वर्तमान मूल्य होगा।

Answer :

(A) F x D

(B) F/D

(C) F+D

(D) D/F

Right Answer :
F x D

Question Id : 77

Option Id

☐ 77001

☐ 77002

☐ 77003

☐ 77004

Right Option Id : 77001

Question 89

$\frac{d}{dx}(\cos^{-1}x)= ?$

Answer :

(A) $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

(B) $\sqrt{1-x^2}$

(C) $\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$

(D) None

Right Answer :
 $\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$

Question Id : 88

Option Id

☐ 88001

☐ 88002

☐ 88003

☐ 88004

Right Option Id : 88003

Question 90

यदि $y=\tan^{-1}\left(\frac{\cos x}{1+\sin x}\right)$, तो $\frac{dy}{dx} =$

Answer :

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $-\frac{1}{2}$

(C) 1

(D) -1

Right Answer :
 $-\frac{1}{2}$

Question Id : 87

Option Id

☐ 87001

☐ 87002

☐ 87003

☐ 87004

Right Option Id : 87002

Question 91

If A is a square matrix such that $|A| \neq 0$ and $A^2 - A+2I = 0$ then $A^{-1} =$

Question Id : 89

Answer :	Option Id
(A) $(I - A)$	☐ 89001
(B) $(I + A)$	☐ 89002
(C) $\frac{1}{2} (I - A)$	☐ 89003
(D) $\frac{1}{2} (I + A)$	☐ 89004
Right Answer : $\frac{1}{2} (I - A)$	Right Option Id : 89003

Question 92 सांख्यिकी: Answer : (A) एक कला है (B) एक विज्ञान है (C) दोनों (A) और (B) (D) (A) और (B) दोनों नहीं	Question Id : 86 Option Id ☐ 86001 ☐ 86002 ☐ 86003 ☐ 86004
Right Answer : दोनों (A) और (B)	Right Option Id : 86003

Question 93 निम्न में से कौन- सी प्राथमिक समंक-संग्रहण रीति सवोपयुक्त और मितव्ययी मानी जाती है, जबकि अनुसंधान क्षेत्र बहुत विशाल है तथा संसूचक अधिकतर शिक्षित हो व अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो। Answer : (A) प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अवलोकन (B) प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों के माध्यम से सूचना प्राप्ति (C) डाक द्वारा प्रश्नावालियां भेजकर (D) अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान	Question Id : 85 Option Id ☐ 85001 ☐ 85002 ☐ 85003 ☐ 85004
Right Answer : डाक द्वारा प्रश्नावालियां भेजकर	Right Option Id : 85003

Question 94 किस माध्य में चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव होता है। Answer : (A) समान्तर माध्य (B) गुणोत्तर माध्य (C) हरात्मक माध्य (D) बहुलक	Question Id : 84 Option Id ☐ 84001 ☐ 84002 ☐ 84003 ☐ 84004
Right Answer : बहुलक	Right Option Id : 84004

Question 95 यदि लारेन्ज वक्र विकर्ण रेखा के नजदीक हो तो Answer : (A) सम	Question Id : 76 Option Id ☐ 76001
--	--

- (B) विषम

☐ 76002
- (C) दोनों

☐ 76003
- (D) इनमें से कोई नहीं

☐ 76004

Right Answer :
सम

Right Option Id : 76001

- Question 96

विचरण गुणांक ज्ञात किया जाता है

Answer :

(A) प्रमाप विचलन

(B) माध्य

(C) दोनों

(D) इनमें से कोई नहीं
- Question Id : 83

Option Id

☐ 83001

☐ 83002

☐ 83003

☐ 83004

Right Answer :
दोनों

Right Option Id : 83003

- Question 97

निम्नलिखित में से सहसम्बन्ध के प्रकार ज्ञात कीजिए:-

Answer :

(A) सकारात्मक या नकारात्मक

(B) रेखीय या अरेखिक

(C) सरल, आंशिक या एकाधिक

(D) उपरोक्त सभी
- Question Id : 82

Option Id

☐ 82001

☐ 82002

☐ 82003

☐ 82004

Right Answer :
उपरोक्त सभी

Right Option Id : 82004

- Question 98

एक पूरा चक्र गुजरता है :-

Answer :

(A) चार चरण

(B) दो चरण

(C) तीन चरण

(D) सात चरण
- Question Id : 81

Option Id

☐ 81001

☐ 81002

☐ 81003

☐ 81004

Right Answer :
चार चरण

Right Option Id : 81001

- Question 99

आधार वर्ष के लिए सूचकांक संख्या हमेशा होती है-

Answer :

(A) 1000

(B) 201

(C) 101

(D) 100
- Question Id : 80

Option Id

☐ 80001

☐ 80002

☐ 80003

☐ 80004

Right Answer : 100	Right Option Id : 80004
------------------------------	--------------------------------

Question 100 आधार वर्ष को इस रूप में भी जाना जाता है:- Answer : (A) संदर्भ वर्ष (B) आवधिक वर्ष (C) चालू वर्ष (D) वित्तीय वर्ष Right Answer : संदर्भ वर्ष	Question Id : 79 Option Id ☐ 79001 ☐ 79002 ☐ 79003 ☐ 79004 Right Option Id : 79001
---	---

Art Of Teaching

Question 101 अधिगत हे Answer : (A) निरंतर प्रक्रिया (B) व्यवहार में परिवर्तन (C) हस्तांतरणीय (D) उपरोक्त सभी Right Answer : उपरोक्त सभी	Question Id : 120 Option Id ☐ 120001 ☐ 120002 ☐ 120003 ☐ 120004 Right Option Id : 120004
--	---

Question 102 शिक्षण का निर्जीव धृव बिन्दु है Answer : (A) पाठ्यक्रम (B) शिक्षक (C) शिक्षार्थी (D) पर्यावरण Right Answer : शिक्षक	Question Id : 121 Option Id ☐ 121001 ☐ 121002 ☐ 121003 ☐ 121004 Right Option Id : 121002
---	---

Question 103 उपलब्धि आधारित उद्देश्य है Answer : (A) मापन योग्य (B) साध्य योग्य (C) लक्ष्य उन्मुखी (D) उपरोक्त सभी Right Answer : उपरोक्त सभी	Question Id : 125 Option Id ☐ 125001 ☐ 125002 ☐ 125003 ☐ 125004 Right Option Id : 125004
--	---

Question 104

उद्देश्य का महत्व है

Answer :

(A) लक्ष्य परिभाषित करने में

(B) क्रिया की पहचान करने में

(C) निर्णय मार्गदर्शित करने में

(D) उपरोक्त सभी

Right Answer :
उपरोक्त सभी

Question Id : 123

Option Id

☐ 123001

☐ 123002

☐ 123003

☐ 123004

Right Option Id : 123004

Question 105

नवीन ज्ञान का सृजन अधीन है

Answer :

(A) संज्ञानात्मक क्षेत्र से

(B) भावात्मक क्षेत्र से

(C) मनोगत्यात्मक क्षेत्र से

(D) अंतःव्यैक्तिक क्षेत्र से

Right Answer :
संज्ञानात्मक क्षेत्र से

Question Id : 124

Option Id

☐ 124001

☐ 124002

☐ 124003

☐ 124004

Right Option Id : 124001

Question 106

शिक्षण विधि निश्चित होता है

Answer :

(A) छात्र की प्रवृत्ति और उम्र पर

(B) शिक्षक की निपुणता पर

(C) अनुदेश के उद्देश्य पर

(D) उपरोक्त सभी

Right Answer :
उपरोक्त सभी

Question Id : 119

Option Id

☐ 119001

☐ 119002

☐ 119003

☐ 119004

Right Option Id : 119004

Question 107

मस्तिष्क मंथन शामिल है

Answer :

(A) निगमन विधि में

(B) आगमन विधि में

(C) मिश्रित विधि में

(D) खेल आधारित विधि में

Right Answer :
आगमन विधि में

Question Id : 117

Option Id

☐ 117001

☐ 117002

☐ 117003

☐ 117004

Right Option Id : 117002

Question 108

शैक्षिक भ्रमण विधि विकसित करती है

Answer :

(A) सहयोगी प्रवृत्ति

Question Id : 126

Option Id

☐ 126001

- (B) सृजनात्मक गुण
- (C) प्रन्यक्ष ज्ञान
- (D) उपरोक्त सभी

- ☐ 126002
- ☐ 126003
- ☐ 126004

Right Answer :
उपरोक्त सभी

Right Option Id : 126004

Question 109
पाठ योजना में शिक्षण बिंदु
Answer :
(A) शिक्षार्थी केन्द्रित है

- (B) शिक्षक केन्द्रित है
- (C) पाठ्यक्रम केन्द्रित है
- (D) कोई नहीं

Question Id : 127

- Option Id
- ☐ 127001
- ☐ 127002
- ☐ 127003
- ☐ 127004

Right Answer :
शिक्षक केन्द्रित है

Right Option Id : 127002

Question 110
ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षक की मदद करता है
Answer :
(A) अधिगम उद्देश्य के वर्गीकरण में

- (B) संज्ञानात्मक स्तर के अधिगम आँकने हेतु
- (C) भावात्मक अधिगम आँकने हेतु
- (D) उपरोक्त सभी

Question Id : 128

- Option Id
- ☐ 128001
- ☐ 128002
- ☐ 128003
- ☐ 128004

Right Answer :
उपरोक्त सभी

Right Option Id : 128004

Question 111
सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि होती है-
Answer :
(A) 20 मिनट

- (B) 25 मिनट
- (C) 36 मिनट
- (D) 40 मिनट

Question Id : 129

- Option Id
- ☐ 129001
- ☐ 129002
- ☐ 129003
- ☐ 129004

Right Answer :
36 मिनट

Right Option Id : 129003

Question 112
अभिक्रमित अनुदेशन का उपयोग किया जाता है-
Answer :
(A) प्रस्तुतीकरण में

- (B) निदान में
- (C) उपचार में
- (D) उपर्युक्त सभी

Question Id : 108

- Option Id
- ☐ 108001
- ☐ 108002
- ☐ 108003
- ☐ 108004

Right Answer :
प्रस्तुतीकरण में

Right Option Id : 108001

Question 113

अन्तःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के उद्देश्य है-

Answer :

- (A) कक्षा में अन्तः क्रिया द्वारा शिक्षक के व्यवहार की पहचान
- (B) शिक्षक व्यवहार के बारे में वस्तुनिष्ठ आँकड़े और क्रमबद्ध अभिलेख इकट्ठा करना
- (C) A और B दोनों
- (D) सिर्फ B

Question Id : 130

Option Id

- ☐ 130001
- ☐ 130002
- ☐ 130003
- ☐ 130004

Right Answer :
A और B दोनों

Right Option Id : 130003

Question 114

सीखेन की अक्षमता है-

Answer :

- (A) तंत्रिका विकार
- (B) दृष्टि विकार
- (C) शारीरिक विकार
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Question Id : 122

Option Id

- ☐ 122001
- ☐ 122002
- ☐ 122003
- ☐ 122004

Right Answer :
तंत्रिका विकार

Right Option Id : 122001

Question 115

कक्षा प्रबंधन के अधिगम गतिविधियों में शामिल नहीं है-

Answer :

- (A) आकलन की प्रक्रिया
- (B) सामग्री पबंधन
- (C) छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Question Id : 118

Option Id

- ☐ 118001
- ☐ 118002
- ☐ 118003
- ☐ 118004

Right Answer :
छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा

Right Option Id : 118003

Question 116

पुस्तकालय प्रदान कर सकते हैं

Answer :

- (A) भौतिक सामग्री
- (B) डिजिटल सामग्री
- (C) A और B दोनों
- (D) इनमें से कोई नहीं

Question Id : 115

Option Id

- ☐ 115001
- ☐ 115002
- ☐ 115003
- ☐ 115004

Right Answer :
A और B दोनों

Right Option Id : 115003

Question 117

निम्नलिखित में से कौन सा घटक पुस्तकालय के लिए आवश्यक है?

Answer :

- (A) अधिगम
- (B) टहलना
- (C) खेल
- (D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :

अधिगम

Question Id : 116

Option Id

- ☐ 116001
- ☐ 116002
- ☐ 116003
- ☐ 116004

Right Option Id : 116001

Question 118

एक शिक्षक को पूछना चाहिए-

Answer :

- (A) अर्थपूर्ण प्रश्न
- (B) निश्चित समय में प्रश्नों की अधिकतम संख्या
- (C) जितना संभव हो उतना प्रश्न
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Right Answer :

अर्थपूर्ण प्रश्न

Question Id : 101

Option Id

- ☐ 101001
- ☐ 101002
- ☐ 101003
- ☐ 101004

Right Option Id : 101001

Question 119

निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की असफलता का मुख्य कारण है?

Answer :

- (A) पारस्परिक संबंध
- (B) मौखिक क्षमता
- (C) विषय के ज्ञान पर पकड़ का अभाव
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Right Answer :

विषय के ज्ञान पर पकड़ का अभाव

Question Id : 102

Option Id

- ☐ 102001
- ☐ 102002
- ☐ 102003
- ☐ 102004

Right Option Id : 102003

Question 120

शिक्षक को अपने शिक्षण काल में महारत हासिल करना चाहिए

Answer :

- (A) किसी एक शिक्षण विधि में
- (B) सभी शिक्षण विधियों में समान रूप से
- (C) A और B दोनों
- (D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :

सभी शिक्षण विधियों में समान रूप से

Question Id : 104

Option Id

- ☐ 104001
- ☐ 104002
- ☐ 104003
- ☐ 104004

Right Option Id : 104002

Question 121

ज्ञान है-

Answer :

- (A) सूचना

Question Id : 105

Option Id

- ☐ 105001

(B) उपयोग

☐ 105002

(C) विश्लेषण

☐ 105003

(D) बोध

☐ 105004

Right Answer :
सूचना

Right Option Id : 105001

Question 122

निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है-

Answer :

(A) शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाद

(B) शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पहले

(C) शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान

(D) उपरोक्त सभी

Question Id : 106

Option Id

☐ 106001

☐ 106002

☐ 106003

☐ 106004

Right Answer :
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान

Right Option Id : 106003

Question 123

रूचि के मूल्यांकन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है?

Answer :

(A) अवलोकन तकनीक

(B) जाँच सूची

(C) निर्धारण मापनी

(D) प्रक्षेपी तकनीक

Question Id : 107

Option Id

☐ 107001

☐ 107002

☐ 107003

☐ 107004

Right Answer :
निर्धारण मापनी

Right Option Id : 107003

Question 124

निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या प्रारूप का प्रकार नहीं है?

Answer :

(A) विषय केन्द्रित

(B) समस्या केन्द्रित

(C) शिक्षार्थी केन्द्रित

(D) शिक्षक केन्द्रित

Question Id : 103

Option Id

☐ 103001

☐ 103002

☐ 103003

☐ 103004

Right Answer :
शिक्षक केन्द्रित

Right Option Id : 103004

Question 125

निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या की प्रकृति नहीं है?

Answer :

(A) महवपूर्ण

(B) रचनात्मक

(C) रूढ़िवादी

(D) सक्रिय

Question Id : 109

Option Id

☐ 109001

☐ 109002

☐ 109003

☐ 109004

Right Answer : सक्रिय

Right Option Id : 109004

Question 126

प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है:-

Answer :

- (A) कट्टरवाद
- (B) जातिवाद
- (C) क्षेत्रवाद
- (D) उपरोक्त सभी

Question Id : 110

Option Id

- ☐ 110001
- ☐ 110002
- ☐ 110003
- ☐ 110004

Right Answer : कट्टरवाद

Right Option Id : 110001

Question 127

शिक्षक को सभी छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए -

Answer :

- (A) दोस्त की तरह
- (B) मालिक की तरह
- (C) समाज रूप से
- (D) व्यक्तिगत रूप से

Question Id : 111

Option Id

- ☐ 111001
- ☐ 111002
- ☐ 111003
- ☐ 111004

Right Answer : दोस्त की तरह

Right Option Id : 111001

Question 128

विफलता हमारी सर्वोत्तम शिक्षक हो सकता है अगर-

Answer :

- (A) अगर हम पहले से ज्यादा मिहनत करते है
- (B) अगर हम विफलता के कारणों को जान लेते है।
- (C) अगर हम विफलता का कारण जान लेते हैं, एवम पहले से ज्यादा उत्साहित होकर श्रम करते हैं।
- (D) उपरोक्त सभी

Question Id : 112

Option Id

- ☐ 112001
- ☐ 112002
- ☐ 112003
- ☐ 112004

Right Answer : अगर हम विफलता का कारण जान लेते हैं, एवम पहले से ज्यादा उत्साहित होकर श्रम करते हैं।

Right Option Id : 112003

Question 129

चॉक बोर्ड एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है-

Answer :

- (A) दृश्य
- (B) श्रव्य
- (C) छव्य-दृश्य
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Question Id : 113

Option Id

- ☐ 113001
- ☐ 113002
- ☐ 113003
- ☐ 113004

Right Answer : दृश्य

Right Option Id : 113001

Question 130 टेलिविजन है- Answer : (A) दृश्य सामग्री (B) श्रव्य-दृश्य सामग्री (C) श्रव्य सामग्री (D) उपरोक्त में से कोई नहीं Right Answer : श्रव्य-दृश्य सामग्री	Question Id : 114 Option Id ☐ 114001 ☐ 114002 ☐ 114003 ☐ 114004 Right Option Id : 114002
Other Skills	

Question 131 हर्यक वंश का संस्थापक कौन है ? Answer : (A) अजातशत्रु (B) हर्षवर्द्धन (C) बिम्बिसार (D) घनानंद Right Answer : बिम्बिसार	Question Id : 149 Option Id ☐ 149001 ☐ 149002 ☐ 149003 ☐ 149004 Right Option Id : 149003
---	---

Question 132 निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? Answer : (A) जलोढ़ (B) काला (C) लाल (D) लेटराइट Right Answer : जलोढ़	Question Id : 148 Option Id ☐ 148001 ☐ 148002 ☐ 148003 ☐ 148004 Right Option Id : 148001
---	---

Question 133 निम्नलिखित में से कौन सा/से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है/हैं? Answer : (A) ट्रेजरी बिल (B) वाणिज्यिक पत्र (C) जमा प्रमाणपत्र (D) उपरोक्त सभी Right Answer : उपरोक्त सभी	Question Id : 147 Option Id ☐ 147001 ☐ 147002 ☐ 147003 ☐ 147004 Right Option Id : 147004
--	---

Question 134 32 फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से त्यागपत्र दे दिया? Answer :	Question Id : 146 Option Id
--	--

- (A) युद्ध में भारत की भागीदारी

146001
- (B) गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह

146002
- (C) अंग्रेजों द्वारा लगाए जा रहे उच्च कर

146003
- (D) राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए

146004

Right Answer :
राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए

Right Option Id : 146004

- Question 135**
समाचारों में रहा 'ULPIN' किस क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट पहचान संख्या है?
Answer :

(A) कराधान

145001

(B) भूमि संसाधन

145002

(C) एमएसएमई

145003

(D) ड्रोन पंजीकरण

145004
- Right Answer :**
भूमि संसाधन

Right Option Id : 145002
- Question 136**
निम्नलिखित में से कौन-सी बीमारी धुंध के कारण होती है?
Answer :

(A) रिकेट्स

144001

(B) ब्रोंकाइटिस

144002

(C) सांस लेने में समस्या

144003

(D) उपरोक्त सभी

144004

Right Answer :
उपरोक्त सभी

Right Option Id : 144004

Question 137
निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट 'नगर ठोस अपशिष्ट' शब्द का वर्णन करता है?
Answer :

(A) विषाक्त

143001

(B) खतरनाक

143002

(C) गैर विषैले

143003

(D) गैर-खतरनाक

143004

Right Answer :
गैर-खतरनाक

Right Option Id : 143004

Question 138
जंगल की आग का मुख्य कारण है_____
Answer :

(A) ज्वालामुखी गतिविधि

142001

(B) बिजली

142002

(C) प्रदूषण

142003

(D) मानव गतिविधि

142004

Right Answer :

मानव गतिविधि

Right Option Id : 142004

Question 139

निम्नलिखित में से कौन सा (हैं) ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्याशित प्रभाव है (हैं)?

Answer :

(A) समुद्र के स्तर में वृद्धि

(B) वर्षा बदलना

(C) रेगिस्तान का विस्तार

(D) उपरोक्त सभी

Question Id : 141

Option Id

141001

141002

141003

141004

Right Answer :

उपरोक्त सभी

Right Option Id : 141004

Question 140

किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

Answer :

(A) 1981

(B) 1999

(C) 2001

(D) 1976

Question Id : 131

Option Id

131001

131002

131003

131004

Right Answer :

1981

Right Option Id : 131001

Question 141

यदि एक वर्ग की भुजा 14 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

Answer :

(A) 192 वर्ग मीटर

(B) 198 वर्ग मीटर

(C) 196 वर्ग मीटर

(D) 196 वर्ग इकाइयाँ

Question Id : 139

Option Id

139001

139002

139003

139004

Right Answer :

196 वर्ग मीटर

Right Option Id : 139003

Question 142

11 परिकलित साधारण ब्याज अगर मूल राशि 50000 है और दर 4 साल के लिए 2% है।

Answer :

(A) 4000

(B) 400

(C) 40000

(D) 40

Question Id : 138

Option Id

138001

138002

138003

138004

Right Answer :

4000

Right Option Id : 138001

Question 143

(0.75 × 4.4 × 2.4) ÷ 0.6 = ?

Answer :

(A) 11

(B) 12

(C) 13

(D) 13.2

Right Answer :
13.2

Question Id : 137

Option Id

☐ 137001

☐ 137002

☐ 137003

☒ 137004

Right Option Id : 137004

Question 144

दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 168 है और उनमें से उच्चतम समापवर्तक 12 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है, तो संख्याओं का योग क्या है?

Answer :

(A) 108

(B) 96

(C) 122

(D) 144

Right Answer :
108

Question Id : 136

Option Id

☐ 136001

☐ 136002

☐ 136003

☒ 136004

Right Option Id : 136001

Question 145

रमेश और सुरेश के मिट्टी के किलों की ऊँचाई 8 सेमी और 15 सेमी है। वे 24 सेमी अलग हैं। किले के शिखर एक दूसरे से कितनी दूर हैं?

Answer :

(A) 31 सेमी

(B) 24 सेमी

(C) 25 सेमी

(D) 24.5 सेमी

Right Answer :
25 सेमी

Question Id : 135

Option Id

☐ 135001

☐ 135002

☒ 135003

☐ 135004

Right Option Id : 135003

Question 146

अपराध : दंड :: विलेख : ?

Answer :

(A) आनंद

(B) घृणा

(C) पाप

(D) इनाम

Right Answer :
आनंद

Question Id : 134

Option Id

☐ 134001

☐ 134002

☐ 134003

☒ 134004

Right Option Id : 134001

Question 147

वह शब्द चुनें जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता हो

Answer :

(A) एन्शेसाइट

Question Id : 133

Option Id

☒ 133001

- (B) बिटुमिनस

☐ 133002
- (C) ग्रेनाइट

☐ 133003
- (D) लिग्नाइट

☐ 133004

Right Answer :
ग्रेनाइट

Right Option Id : 133003

- Question 148

1,2,3,1,4,9,1,...27

Answer :

(A) 5

(B) 4

(C) 16

(D) 8
- Question Id : 132

Option Id

☐ 132001

☐ 132002

☐ 132003

☐ 132004

Right Answer :
8

Right Option Id : 132004

- Question 149

यदि DARE को 1083 के रूप में कोडित किया जाता है और FATE को 2093 के रूप में कोडित किया जाता है, तो FARE को किस रूप में कोडित किया जाएगा?

Answer :

(A) 2083

(B) 8320

(C) 2038

(D) 3802
- Question Id : 140

Option Id

☐ 140001

☐ 140002

☐ 140003

☐ 140004

Right Answer :
2083

Right Option Id : 140001

- Question 150

मार्कंडेय राजीव की मां के पिता हैं। मार्कंडेय के तीन भाई हैं। उनमें से एक का पोता अभि है। राजन, अभि का पुत्र है। राजन, राजीव से संबंधित है

Answer :

(A) भाई

(B) भतीजा

(C) चचेरा भाई

(D) चाचा
- Question Id : 150

Option Id

☐ 150001

☐ 150002

☐ 150003

☐ 150004

Right Answer :
भतीजा

Right Option Id : 150002